

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 612]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2019 — भाद्रपद 29, शक 1941

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 20 सितम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-04/2019/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार नवीन जिला “गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही” सृजन करने, जिला बिलासपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने तथा उसकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है।

इस प्रस्ताव पर, “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में सूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिवस के अवसान पर विचार किया जायेगा तथा इसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कक्ष क्रमांक एस 2-3, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को, उक्त कालावधि के अवसान होने के पूर्व, प्रेषित किये जा सकेंगे।

अनुसूची

स.क्र.	जिला	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)
1	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	जिला बिलासपुर की संपूर्ण तहसील पेण्ड्रारोड, मरवाही एवं पेण्ड्रा को समाविष्ट करते हुए नवीन जिला “गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही” का सृजन।	उत्तर में - तहसील मनैद्रगढ़, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ दक्षिण में - तहसील कोटा, जिला बिलासपुर एवं तहसील लोरमी जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ पूर्व में - तहसील कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ पश्चिम में - तहसील सोहागपुर एवं पुष्परजगढ़ जिला अनुपपूर, मध्यप्रदेश

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता यादव, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 20th September 2019

NOTIFICATION

No. F 11-04/2019/Sevan-4. — In pursuance of the provisions contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Act, the State Government proposes to alter the limits of district Bilaspur to create a new district "Gaurela-Pendra-Marwahi" and to define the limits thereof as specified in the Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette" and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Government of Chhattisgarh, Revenue and Disaster Management Department, Room No. S 2-3, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, Distt. Raipur, before the expiry of the said period.

SCHEDULE

S. No.	District	Nature of change	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(6)
1.	Gaurela-Pendra-Marwahi	Creation of new district "Gaurela-Pendra-Marwahi" by inclusion of whole Tehsils of Pendra road, Marwahi and Pendra of Bilaspur district	North— Tehsil Manendragarh, District Korba, Chhattisgarh. South— Tehsil Kota, District Bilaspur and Tehsil Lormi, District Mungeli, Chhattisgarh. East— Tehsil Katghora, District Korba, Chhattisgarh. West— Tehsil Sohagpur and Pushprajgarh, District Anuppur, Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RITA YADAV, Deputy Secretary.